



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)  
PART II—Section 3—Sub-section (iii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 50] नई दिल्ली, बुधवार, मई 31, 1995/ज्येष्ठ 10, 1917  
No. 50] NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 31, 1995/JYAIṢṬHA 10, 1917

भारत निर्वाचन आयोग  
अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मई, 1995

आ. अ. 93(अ):— निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 11 के उप नियम (2) के अनुसरण में सामान्य सूचना के लिए निम्नलिखित प्रकाशित किया जाता है:—

प्रारूप—7ख

नियोजन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची

[दिखें नियम 10(1)]

असम विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्य सभा हेतु निर्वाचन, 1995

सं.	अभ्यर्थी का नाम	अभ्यर्थी का पता	सम्बद्ध दल
3	2	3	4
1.	डेविड लेजर	पो.आ. बारापेटा रोड जिला—बारापेटा, असम	इंडियन नेशनल कांग्रेस

1	2	3	4
2.	पराग चलिहा	पो. आ सिबसागर जिला—सिबसागर पिन 785640	असम गण परिषद्
3.	डा. मनमोहन सिंह	मकान नं. 192(का) पार्ट -75, वार्ड नं 34 (न्यू 51) सारुमोटारिया, असम सचिवालय पो.आ., थाना दिसपुर, जिला कामरूप; गुवाहाटी-6	इंडियन नेशनल कांग्रेस

स्थान : दिसपुर  
तारीख 29-5-1995

हस्ता.  
रिटर्निंग आफिसर  
राज्य सभा के द्विवार्षिक निर्वाचन के लिए  
रिटर्निंग आफिसर।  
[संख्या 318/रा. सं.-असम/95]  
आदेश से,  
सी. आर. ब्रह्मम्, सचिव

ELECTION COMMISSION OF INDIA  
NOTIFICATION

New Delhi, the 31st May, 1995

O.N. 93(E).—In pursuance of sub-rule (2) of rule 11 of the Conduct of Elections Rules, 1961, the following is published for general information :—

FORM-7B

LIST OF CONTESTING CANDIDATES

[See rule 10(1)]

Election to the Council of States by elected Members of Legislative Assembly of Assam, 1995.

Sl. No.	Name of candidate	Address of Candidate	Party Affiliation
1	2	3	4
1.	David Ledger	P.O. Barpeta Road, District—Barpeta, Assam	Indian National Congress

1	2	3	4
2.	Parag Chaliha	P.O. Sibsagar, District—Sibsagar, Pin-785640	Asom Gana Parishad —
3.	Dr. Manmohan Singh	House No. 192(Ka) Part-75, Ward No. 34 (New 51), Sarumotaria, Assam Sachivalaya P.O., P.S. Dispur, District—Kamrup, Guwahati-6	Indian National Congress

Place : Dispur  
Date : 29-05-95

Sd/-  
Returning Officer  
for the Biennial Election to the  
Council of States

[No 318/CS-AS/95]

By order,  
C.R. BRAHMAM, Secy.

